

टिप्पणी 2क : संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

(अन्यथा उल्लेख न किया गया है, सभी राशियाँ लाख रुपए में हैं)

परिसंपत्तियों की श्रेणी	लागत या मान्य लागत				संचित मूल्यहास और परिशोधन				निवल मूल कीमत	
	1 अप्रैल 2022 पर	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान विचलन/समायोजन	31 मार्च 2023 पर	1 अप्रैल 2022 पर	वर्ष के लिए मूल्यहास प्रभार	वर्ष के दौरान विचलन	31 मार्च 2023 पर	31 मार्च 2023 पर	31 मार्च 2022 पर
मूर्त परिसंपत्तियाँ, स्वामित्ववाली										
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	493.48	0.00	0.00	493.48	0.00	0.00	-	0.00	493.48	493.48
भवन	3768.11	122.61	0.00	3890.72	659.35	154.45	-	813.80	3076.92	3108.76
संयंत्र और उपस्कर	6217.45	402.36	0.00	6619.81	2383.75	490.43	-	2874.18	3745.63	3833.70
फर्नीचर व फिक्सचर	345.79	23.13	0.00	368.92	121.72	36.00	-	157.72	211.20	224.07
कार्यालय उपकरण	53.28	14.20	0.00	67.48	27.66	10.59	-	38.25	29.23	25.62
कंप्यूटर	141.15	35.10	0.00	176.25	79.49	29.61	-	109.10	67.15	61.66
कैटिन उपकरण	6.41	27.12	0.00	33.53	4.79	4.58	-	9.37	24.16	1.62
मोटर वाहन	24.40	39.47	18.40	45.47	13.86	5.32	14.18	5.00	40.47	10.54
उप कुल	11050.07	663.99	18.40	11695.66	3290.62	730.98	14.18	4007.42	7688.24	7759.45
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	0.00	3.31	0.00	3.31	0.00	0.16	-	0.16	3.15	0.00
उप कुल	0.00	3.31	0.00	3.31	0.00	0.16	0.00	0.16	3.15	0.00
प्रगतिशील पूंजी कार्य	33.90	890.04	0.00	923.94	0.00	0.00	-	0.00	923.94	33.90
उप कुल	33.90	890.04	0.00	923.94	0.00	0.00	-	0.00	923.94	33.90
कुल	11083.97	1557.34	18.40	12622.91	3290.62	731.14	14.18	4007.58	8615.33	7793.35
पिछले वर्ष	10497.62	809.51	223.16	11083.97	2545.72	759.83	14.93	3290.62	7793.35	

(वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी 46 से 47 का संदर्भ भी लें)

टिप्पणी : 1. धारवाड़ भूमि 26 गुंटा कम होने के कारण रु.34.94 लाख की राशि कम की गई, जो कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम से वसूली योग्य है।

2ख. प्रगतिशील पूंजी कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के उम्र बढ़ने की अनुसूची:

(अन्यथा उल्लेख न किया गया है, सभी राशियाँ लाख रुपए में हैं)

प्रगतिशील पूंजी कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के उम्र बढ़ने की अनुसूची

31 मार्च 2023 के अनुसार	सीडब्ल्यूआईपी में अवधि के लिए राशि				कुल
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिशील परियोजना	890.04	33.90	-	-	923.94
अस्थायी रूप में निलंबित परियोजना	-	-	-	-	-
कुल	890.04	33.90	0.00	0.00	923.94

31 मार्च 2022 के अनुसार	सीडब्ल्यूआईपी में अवधि के लिए राशि				कुल
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिशील परियोजना	33.90	-	-	-	33.90
अस्थायी रूप में निलंबित परियोजना	-	-	-	-	-
कुल	33.90	0.00	0.00	0.00	33.90

- टिप्पणी:**
1. ऐसी कोई परियोजना नहीं है जो मूल योजनाओं की तुलना में अतिदेय प्रगतिशील पूंजी है।
 2. ऐसी कोई परियोजना नहीं है जो मूल योजनाओं की तुलना में अपनी लागत से अधिक हो गई है।

(अन्यथा उल्लेख न किया गया है, सभी राशियाँ लाख रुपए में हैं)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
3 गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ – ऋण (परिशोधित लागत पर)		
कर्मचारियों को अग्रिम	0.02	0.06
	0.02	0.06
4 गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ – अन्य (परिशोधित लागत पर)		
सरकारी विभागों के साथ जमा राशि	150.71	123.32
किराया जमा राशि	61.28	53.26
लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निवेश	5.29	-
सामूहिक अवकाश नकदीकरण योजना बीमा पॉलिसी - (प्रावधान का निवल)	202.07	249.12
	419.35	425.70
5 आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ/(देयताएं) (निवल) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ		
क) संदिग्ध ऋण, दावे आदि के प्रावधान	36.07	132.52
ख) छुट्टी वेतन	175.34	126.01
ग) उपदान	80.30	66.09
घ) अन्य	161.98	235.35
	453.69	559.97
आस्थगित कर देयताएं		
क) स्थाई परिसंपत्तियाँ – मूल्य अंतर अवलेखन	481.42	470.04
	481.42	470.04
	(27.73)	89.93
6 अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ (असुरक्षित, प्राप्य मान्य)		
पूंजी अग्रिम	939.52	32.68
पूर्वदत्त व्यय	66.04	22.27
सावधि जमा निधि खाते में 12 महीनों से अधिक परिपक्वता के साथ	1760.00	-
	2765.56	54.95
7 मालसूचियाँ (कम लागत और निवल वसूलीय योग्य मूल्य पर)		
केएपीएल में कच्चे माल	2684.11	3853.00
ऋण लाइसेंस पार्टियों के पास कच्चे माल	29.33	13.12
घटाएँ : अप्रचलन के लिए प्रावधान	(127.85)	(97.93)
	2585.59	3768.19

(अन्यथा उल्लेख न किया गया है, सभी राशियाँ लाख रुपए में हैं)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
भंडार और पुर्जे	74.56	70.20
प्रगतिशील कार्य	1177.84	528.66
निर्मित माल	2107.01	2527.31
व्यापार स्टॉक	730.84	557.71
मार्गस्थ माल		
कच्चा माल	74.25	242.26
निर्मित माल	372.50	487.64
व्यापार स्टॉक	139.42	57.70
	7262.01	8239.67
8 प्राप्य व्यापार (परिशोधित लागत पर)		
क) प्राप्य व्यापार योग्य मान्य - सुरक्षित	481.16	94.90
ख) प्राप्य व्यापार योग्य मान्य - असुरक्षित	11830.91	14744.29
ग) प्राप्य व्यापार, जो क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि रखती है	669.89	526.55
घटाएँ: प्राप्य व्यापार, जो क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि रखती है, के लिए प्रावधान	(669.89)	(526.55)
	12312.07	14839.19
8.1 विविध देनदार' में सरकारी संस्थाओं / निकायों से देय रु.8448.76 लाख (गतवर्ष रु.11547.23 लाख) शामिल है, जिसके संबंध में शेष राशि के पुष्टीकरण की प्रतीक्षा है।		
8.2 सरकारी संस्थानों/निकायों के अलावा अन्य प्राप्य व्यापार के लिए कंपनी द्वारा मांगी गई ऐसी प्राप्तियों के कुल रु.4250.94 लाख (पिछले वर्ष रु.3642.57 लाख) शेष राशि की पुष्टि की प्रतीक्षा है, उन मामलों में जहां प्राप्य से प्राप्त पुष्टिकरणों में अंतर देखा गया है, कंपनी ने आवश्यक सुलह करने के बाद, वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए खातों की पुस्तकों के अनुसार शेष राशि को अपनाया है।		
8.3 हालांकि, कंपनी की राय में, शेष राशि की पुष्टि प्राप्त न होने से कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।		

(अन्यथा उल्लेख न किया गया है, सभी राशियाँ लाख रुपए में हैं)

प्राप्य व्यापार के उम्र बढ़ने की अनुसूची

31 मार्च 2023 के अनुसार	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद प्राप्य व्यापार - प्राप्य मान्य	9858.95	933.70	1190.48	328.94	0.00	12312.07
(ii) निर्विवाद प्राप्य व्यापार - जो क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण रखती वृद्धि है	0.00	0.00	0.00	0.00	669.89	669.89
घटाएँ: प्राप्य व्यापार, जो क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि रखती है, के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	(669.89)	(669.89)
कुल	9858.95	933.70	1190.48	328.94	0.00	12312.07

31 मार्च 2022 के अनुसार	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद प्राप्य व्यापार - प्राप्य मान्य	11124.71	1528.98	1399.06	728.58	57.86	14839.19
(ii) निर्विवाद प्राप्य व्यापार - जो क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण रखती वृद्धि है	0.36	0.00	7.54	7.29	511.36	526.55
घटाएँ: प्राप्य व्यापार, जो क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि रखती है, के लिए प्रावधान	(0.36)	0.00	(7.54)	(7.29)	(511.36)	(526.55)
कुल	11124.71	1528.98	1399.06	728.58	57.86	14839.19

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
-------	-------------------------	-------------------------

9. नकद एवं नकद समतुल्य (परिशोधित लागत पर)

हाथ में शेष नकद	0.34	0.50
बैंकों में शेष		
चालू खाते में	910.70	473.87
सावधि जमा निधि खाते में		
3 महीने से कम की मियाद वाले	567.22	690.26
(कर्मचारियों के कल्याण के लिए गठित कल्याण निधि के संबंध में बैंक ऑफ बरोडा, बेंगलूर के साथ रखी हुई रु.7.22 लाख (गत वर्ष रु.6.87 लाख) की राशि को सावधि जमा खाते में शामिल किया गया है।)		
	1478.26	1164.63

(अन्यथा उल्लेख न किया गया है, सभी राशियाँ लाख रुपए में हैं)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
10 अन्य बैंक शेष राशियाँ (परिशोधित लागत पर)		
सावधि जमाराशि - 3 महीने से अधिक, लेकिन 12 महीने से कम की मियाद वाले	4420.25	3199.90
सावधि जमाराशि (मार्जिन राशि) - 12 महीने से कम की परिपक्वता के साथ (बैंक ऑफ बडौदा में धारणाधिकार के रूप में चिह्नित रु.367.77 लाख (गत वर्ष रु.80.84 लाख) की सावधि जमा राशि)	367.77	125.58
	4788.02	3325.48
11 चालू ऋण तथा अग्रिम (परिशोधित लागत पर)		
असुरक्षित, प्राप्य मान्य		
फील्ड कर्मचारियों को अग्रदाय सहित कर्मचारियों को अग्रिम	61.35	74.03
अन्य अग्रिम	36.98	38.26
(धारवाड़ भूमि 26 गुंटा कम होने के कारण रु.34.94 लाख की राशि कम की गई, जो कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम से वसूली योग्य है।)		
	98.33	112.29
12 चालू - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
सरकारी विभागों के साथ जमा राशि (12.1 को देखें)		
प्राप्य मान्य	99.60	112.81
संदिग्ध मान्य	7.12	7.12
	106.73	119.93
घटाएँ : संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान	(7.12)	(7.12)
	99.60	112.81
सावधि जमा राशि पर अर्जित ब्याज	90.09	35.85
अन्य प्राप्य	18.39	194.59
घटाएँ : प्रावधान - अन्य प्राप्य	-	(177.81)
	18.39	16.78
	208.08	165.44

(अन्यथा उल्लेख न किया गया है, सभी राशियाँ लाख रुपए में हैं)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
12.1 सरकारी विभागों (चालू और गैर चालू) के साथ जमा के संबंध में शेष रु.111.97 लाख की राशि की पुष्टि की प्रतीक्षा है (पिछले वर्ष 119.94 लाख रुपये)। उन मामलों में जहां प्राप्त पुष्टिकरणों में अंतर पाया जाता है, कंपनी ने आवश्यक सुलह करने के बाद, वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए लेखा पुस्तकों के अनुसार शेष राशि को अपनाया है। हालांकि, कंपनी की राय में, शेष राशि की पुष्टि प्राप्त न होने से कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।		
12.2 सिटी सिविल और सेशन कोर्ट ने मध्यस्थता कार्यवाही के निर्णय को बरकरार रखा और इसलिए मेसर्स अंकुर ड्रग्स लिमिटेड से प्राप्त 177.81 लाख रुपये के उत्पाद शुल्क को वापस दिया गया है।		
13 वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		
अग्रिम आयकर और टीडीएस	871.18	850.30
घटाएँ: आयकर के लिए प्रावधान	(876.47)	(953.18)
	(5.29)	(102.88)
आयकर वापसी योग्य	222.70	367.98
	217.41	265.10
14 अन्य कर परिसंपत्तियाँ		
सरकारी प्राधिकारियों के साथ शेष (जीएसटी/उत्पाद शुल्क/वैट)	1776.07	1831.63
आपूर्ति और अन्य के लिए अग्रिम	15.34	41.38
पूर्वदत्त व्यय	95.79	77.30
	1887.20	1950.31
14.1 सरकारी प्राधिकारियों के साथ शेष (जीएसटी/उत्पाद शुल्क/वैट) राशि में रु.79.56 लाख (गतवर्ष रु.79.56 लाख) सम्मिलित है। उप/सहायक जीएसटी आयुक्त (मण्डल - IV), गोवा के कार्यालय से वापसी प्राप्त योग्य है। वसूली के लिए वि.वर्ष 2018-19 में आवेदन दायर किया गया है और तत्संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई प्रगति पर है।		
15 शेयर पूंजी:		
प्राधिकृत		
15,00,000 (गत वर्ष 15,00,000) प्रत्येक रु.100/- रुपए के इक्विटी शेयर	1500.00	1500.00
	1500.00	1500.00
जारी, अभिदत्त एवं पूर्णतया प्रदत्त:		
13,49,000 (गत वर्ष 13,49,000) प्रत्येक रु.100/- रुपए के इक्विटी शेयर	1349.00	1349.00
	1349.00	1349.00

(अन्यथा उल्लेख न किया गया है, सभी राशियाँ लाख रुपए में हैं)

(i) वर्ष के आरंभ में और वर्ष के अंत तक बकाया शेयरों की संख्या का मिलान

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार		31 मार्च 2022 के अनुसार	
	शेयर की संख्या	राशि	शेयर की संख्या	राशि
वर्ष के आरंभ में	1349000	1349.00	1349000	1349.00
जोड़ : वर्ष के दौरान जारी शेयरों की संख्या	-	-	-	-
वर्ष के अंत में	1349000	1349.00	1349000	1349.00

(ii) इक्विटी शेयरों के विभिन्न वर्गों के अधिकार, हकदारी और दायित्वों का उल्लेख यहां नीचे दिया गया है:

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसका मूल्य रु. 100 प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक शेयरधारक एक वोट का हकदार है। निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, इक्विटी शेयरधारकों को वितरण के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश 15 रुपये (पिछले वर्ष - 30 रुपये) प्रति शेयर है।

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी अधिमाम्य राशियों के वितरण के बाद, यदि कोई हो, कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

(iii) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) के परिपत्र संख्या एफ संख्या 5/2/2016- नीति दिनांक 27.05.2016 के अनुसार, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक सीपीएसई न्यूनतम वार्षिक लाभांश 30 का भुगतान करेगा। मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन पीएटी का प्रतिशत या निवल मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।

कंपनी ने विभिन्न पूंजी प्रतिबद्धताओं के कारण वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2021-22 तक 3945 लाख रुपये के लाभांश का कम भुगतान किया है। दीपम के दिशानिर्देशों के पैरा 5.3 के अनुसार, कंपनी ने हर वर्ष प्रशासनिक मंत्रालय से अनुमोदन मांगा है।

(iv) कंपनी के 5% से अधिक इक्विटी शेयर धारण करनेवाले शेयरधारकों का विवरण:

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार		31 मार्च 2022 के अनुसार	
	शेयर की संख्या	कुल शेयरों का %	शेयर की संख्या	कुल शेयरों का %
भारत के राष्ट्रपति	798180	59.17%	798180	59.17%
केएसआईआईडीसी लिमिटेड	550820	40.83%	550820	40.83%
कुल	1349000	100.00%	1349000	100.00%

(अन्यथा उल्लेख न किया गया है, सभी राशियाँ लाख रुपए में हैं)

(v) वर्ष के अंत में प्रवर्तकों द्वारा रखे गए शेयर

प्रवर्तक का नाम	31 मार्च 2023 के अनुसार		31 मार्च 2022 के अनुसार		वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	धारित शेयरों की संख्या	कुल चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का %	धारित शेयरों की संख्या	कुल चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का %	
भारत के राष्ट्रपति	7,98,180	59.17%	7,98,180	59.17%	0.00
केएसआईआईडीसी लिमिटेड	5,50,820	40.83%	5,50,820	40.83%	0.00

(vi) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के परिपत्र संख्या एफ संख्या 5/2/2016 - नीति दिनांक 27.05.2016 के अनुसार, जिसमें यह कहा गया था कि प्रत्येक सीपीएसई बोनस शेयर जारी करेगा यदि उनके परिभाषित भंडार और अधिशेष इसकी चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के बराबर या 10 गुना से अधिक है। कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई बोनस शेयर जारी नहीं किया है।

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
16. अन्य इक्विटी		
सामान्य आरक्षित		
प्रारंभिक शेष	22176.51	20066.94
जोड़ें : लाभ और हानि में अधिशेष से अंतरण	2000.00	2000.00
जोड़ें : सीएसआर निधि आरक्षित से अंतरण	-	92.91
जोड़ें: संपोषणीय विकास निधि आरक्षित से अंतरण	-	16.66
अंतिम शेष	24176.51	22176.51
सीएसआर निधि आरक्षित		
प्रारंभिक शेष	0.00	92.91
घटाएँ : सामान्य आरक्षण में अंतरण	0.00	92.91
अंतिम शेष	0.00	0.00
संपोषणीय विकास कोष प्रारक्षण		
प्रारंभिक शेष	0.00	16.66
घटाएँ : सामान्य आरक्षण में अंतरण	0.00	16.66
अंतिम शेष	0.00	0.00
प्रतिधारित अर्जन		
प्रारंभिक शेष	392.79	331.67
जोड़ें : वर्ष के लिए निवल लाभ/(हानि)	2488.79	2465.82
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि	2881.58	2797.49
विनियोजन		
सामान्य आरक्षित को हस्तांतरित	2000.00	2000.00
अंतिम लाभांश	404.70	404.70
	2404.70	2404.70
अंतिम शेष	476.88	392.79

(अन्यथा उल्लेख न किया गया है, सभी राशियाँ लाख रूप में हैं)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
अन्य व्यापक आय		
परिभाषित लाभ योजनाओं पर अस्वीकृति लाभ/(हानि)		
प्रारंभिक शेष	(9.62)	39.59
जोड़ें या (घटाएँ): वे मद जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	0.68	(65.76)
जोड़ें या (घटाएँ) : उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	(0.17)	16.55
अंतिम शेष	(9.11)	(9.62)
कुल अन्य इक्विटी	24644.28	22559.68
17 गैर चालू उधार		
बैंक ऑफ बरोड़ा से: सुरक्षित (टिप्पणी सं.19 को देखें)		
सावधि ऋण:	0.00	75.00
	0.00	75.00
कार्यशील पूंजी सीमाओं के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ समान समय के आधार पर विशिष्ट अचल परिसंपत्तियों का दृष्टि बंधक और कंपनी की अन्य अचल परिसंपत्तियों की निरंतर सुरक्षा के विरुद्ध सुरक्षित।		
चालू रु.75.68 लाख (टिप्पणी सं.19 को देखें) (गत वर्ष 300.68 लाख)		
अप्रचलित रु. शून्य (गत वर्ष रु.75.00 लाख)		
चुकोती की समयावधि		
जुलाई, 2018 से शुरू होने वाली प्रत्येक रु.25 लाख की 60 समान मासिक किश्तें - ब्याज दर - 10.30%-31 मार्च 2023 के अनुसार 3 किश्तें चुकानी शेष हैं। उपरोक्त अवधि के ऋण की अदायगी में कोई चूक नहीं है।		
18 गैर चालू प्रावधान		
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान (टिप्पणी 23 को भी देखें):		
उपदान	140.04	332.36
बीमारी छुट्टी	372.92	354.47
	512.96	686.83
19 वर्तमान उधार		
सुरक्षित ऋण मांग पर चुकाने योग्य		
बैंकों से कार्यशील पूंजी ऋण	0.00	0.00
दीर्घावधि ऋण की चालू परिपक्वता (टिप्पणी 17 को भी देखें):	75.68	300.68
	75.68	300.68

अनुसूचित बैंकों से कार्यशील पूंजी की सुविधाएं व्यापार में स्टॉक के अनुमानों के विरुद्ध सुरक्षित हैं और समान समय के आधार पर बुक ऋण हैं और बैंक ऑफ बरोड़ा को पारि पासु आधार पर सावधि ऋण के लिए निर्धारित अचल परिसंपत्तियों के अलावा अन्य अचल संपत्तियों की संपार्श्विक प्रतिभूति सुरक्षित हैं। नकद क्रेडिट के तहत डेबिट शेष दृष्टि बंधक लेखे का प्रकटीकरण को नकद और बैंक शेष के तहत किया जाता है। ब्याज दर लिबोर (LIBOR) से जुड़ी हुई है।

(अन्यथा उल्लेख न किया गया है, सभी राशियाँ लाख रुपए में हैं)

चालू परिसंपत्तियों के विरुद्ध सुरक्षित उधार

तिमाही	बैंक का नाम	प्रदत्त प्रतिभू का विवरण	बहीखाते के अनुसार राशि	तिमाही विवरण में रिपोर्ट की गई राशि	राशि में अंतर	महत्वपूर्ण विसंगतियों का कारण
जून 22	बैंक ऑफ बरोड़ा एवं भारतीय स्टेट बैंक	पारि पासु आधार पर मालसूची एवं बही ऋण	21147	19791	1356	शामिल अवधि से परे देनदारियाँ
सितंबर 22	बैंक ऑफ बरोड़ा एवं भारतीय स्टेट बैंक	पारि पासु आधार पर मालसूची एवं बही ऋण	24565	22487	2078	शामिल अवधि से परे देनदारियाँ
दिसंबर-22	बैंक ऑफ बरोड़ा एवं भारतीय स्टेट बैंक	पारि पासु आधार पर मालसूची एवं बही ऋण	26255	23822	2433	शामिल अवधि से परे देनदारियाँ
मार्च-23	बैंक ऑफ बरोड़ा एवं भारतीय स्टेट बैंक	पारि पासु आधार पर मालसूची एवं बही ऋण	19574	17882	1692	बैंक को प्राक्कलित राशि दी गई है/ शामिल अवधि से परे देनदारियाँ

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
-------	-------------------------	-------------------------

20 व्यापार देनदारियाँ

सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय	2420.65	2647.00
अन्य लेनदार	7144.67	6211.86
	9565.32	8858.86

20.1 व्यापार देनदारियों के लिए शेष राशि की पुष्टि के लिए अनुरोध परिचालित किया गया था और कुछ प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं। रु.8811.53 लाख तक की कुल राशि की पुष्टि की प्रतीक्षा है।

उन मामलों में जो अंतर पुष्टि में देखा गया है, कंपनी ने आवश्यक सुलह करने के बाद वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए खातों की पुस्तकों के अनुसार शेष राशि को अपनाया है। हालांकि, कंपनी की राय में, शेष राशि की पुष्टि न होने से कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

20.2 विवरण

	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
वर्ष के अंत तक बकाया मूलधन राशि	2420.65	2647.00
वर्ष के अंत में अर्जित और बकाया ब्याज की राशि	-	-
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार कंपनी द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ-साथ वर्ष के दौरान नियत तिथि के बाद भुगतान की राशि।	-	-

(अन्यथा उल्लेख न किया गया है, सभी राशियाँ लाख रुपए में हैं)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ब्याज के बिना भुगतान करने में विलम्ब की अवधि के लिए देय एवं देय ब्याज की राशि।	-	-
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृत करने के उद्देश्य से आगे के वर्षों में शेष देय और देय ब्याज की राशि, ऐसी तारीख तक जब उपरोक्त के रूप में ब्याज बकाया वास्तव में छोटे उद्यमों को भुगतान किया जाता है	-	-

20.3 मेसर्स अंकुर ड्रग्स एंड फार्मा लिमिटेड के मामले में नगर सिविल एवं सेशन न्यायालय द्वारा मध्यस्थता के फैसले को बरकरार रखे जाने के कारण वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान व्यापार देनदारियों में रु. 509.78 लाख शामिल करने का प्रावधान किया गया।

व्यापार देय उम्र बढ़ने की अनुसूची

31.03.2023 के अनुसार	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	2,420.65	0.00	0.00	0.00	2,420.65
(ii) अन्य	6,147.26	22.58	42.18	932.65	7,144.67
(iii) विवादित बकाया - अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	8567.91	22.58	42.18	932.65	9565.32

31.03.2022 के अनुसार	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	2,647.00	0.00	0.00	0.00	2,647.00
(ii) अन्य	5,494.50	43.70	49.77	203.76	5,791.73
(iii) विवादित बकाया - अन्य	0.00	0.00	0.00	420.13	420.13
कुल	8,141.50	43.70	49.77	623.89	8.858.86

21 अन्य चालू वित्तीय देयताएं (परिशोधित लागत पर)

प्राप्त ईएमडी और सुरक्षा जमा (उसपर ब्याज सम्मिलित)	426.33	572.67
पूंजीगत व्यय के लिए लेनदार	368.09	141.39
	794.42	714.06

(अन्यथा उल्लेख न किया गया है, सभी राशियाँ लाख रुपए में हैं)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
22 अन्य चालू देयताएं		
भुगतान करने योग्य सांविधिक देय	364.47	281.27
ग्राहकों से अग्रिम	636.24	996.07
बकाया खर्च	2044.87	2072.08
अन्य देय	23.54	23.59
	3069.12	3373.01
22.1 अन्य देय में रु.13.91 लाख (गत वर्ष रु.13.61 लाख), जो कार्यकारी कल्याण निधि के लिए देय राशि रु.5.23 लाख (गत वर्ष रु.4.80 लाख) और गैर-कार्यकारी कल्याण निधि के लिए देय राशि रु.8.69 लाख (गत वर्ष रु.8.81 लाख) है, जिन्हें प्रबंधन और कर्मचारियों के सदस्यों से गठित समिति द्वारा प्रशासित किया जाता है। इन रु.8.69 लाख (गत वर्ष रु.8.81 लाख) गैर-कार्यकारी कल्याण कोष में से रु.7.22 लाख (गत वर्ष रु.6.87 लाख) की राशि को बैंक ऑफ बरोड़ा, बेंगलूरू के साथ सावधि जमा के रूप में धारित की जाती है।		
23 वर्तमान प्रावधान		
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान (टिप्पणी सं.18 को भी देखें)		
बीमारी छुट्टी	19.68	32.64
उपदान	122.72	129.84
सेवानिवृत्ति के बाद स्वास्थ्य बीमा के लिए प्रावधान	5.00	5.00
प्रावधान अन्य		
आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	238.25	341.25
	385.65	508.73

(अन्यथा उल्लेख न किया गया है, सभी राशियाँ लाख रुपए में हैं)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
24 परिचालनों से राजस्व:		
(क) उत्पादों की बिक्री		
घरेलू	48516.77	44928.85
निर्यात	4240.57	2458.57
	52757.34	47387.42
(ख) अन्य परिचालन राजस्व		
ऋण लाइसेंस - शम	99.58	114.60
स्क्रेप बिक्री	32.74	30.22
	132.32	144.82
	52889.66	47532.24
भारतीय ले.मा.115 के संबंध में प्रकटीकरण		
अनुबंधित मूल्य समायोजन	53279.92	48387.65
- छूट	26.01	16.57
- बिक्री वापसी	294.67	522.82
- परिनिर्धारित नुकसानी	201.90	460.84
	52757.34	47387.42
25 अन्य आय		
बैंकों से ब्याज	212.41	219.98
अन्यों से ब्याज	9.24	7.24
निर्यात प्रोत्साहन	50.81	106.86
आयकर वापसी पर ब्याज	65.96	28.60
विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव का लाभ (निवल)	3.06	0.29
वसूल किया गया माल भाड़ा	9.48	1.78
पार्टियों से प्राप्त छूट	340.70	0.32
विविध क्रेडिट शेष वापस लिखा गया	38.14	2.24
प्रतिवर्ती अतिरिक्त प्रावधान	4.95	-
स्क्रेप - विनिर्माण के इतर	3.07	5.59
अन्य गैर परिचालन आय	11.86	19.26
	749.68	392.16
26 उपभोग की गई सामग्री की लागत		
क. कच्चा माल		
I. स्वदेशी	18286.18	17916.06
II. आयातित	0.00	0.00
	18286.18	17916.06

(अन्यथा उल्लेख न किया गया है, सभी राशियाँ लाख रुपए में हैं)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
26 ख. पैकिंग सामग्री		
I. स्वदेशी	4687.42	3880.47
	4687.42	3880.47
(क + ख)	22973.60	21796.53
निवल उपभोग	22973.60	21796.53
27 निर्मित माल, प्रगतिशील कार्य तथा व्यापार स्टॉक की मालसूचियों में परिवर्तन		
प्रारम्भिक स्टॉक		
प्रगतिशील कार्य	528.66	194.56
निर्मित माल	3014.95	2870.83
व्यापार स्टॉक	615.41	498.37
	4159.02	3563.76
घटाएँ : अंतिम स्टॉक		
प्रगतिशील कार्य	1177.84	528.66
निर्मित माल	2479.51	3014.95
व्यापार स्टॉक	870.25	615.41
	4527.60	4159.02
सीएसआर व्यय के तहत आपूर्ति किया गया निर्मित माल	8.55	7.39
	(377.13)	(602.65)
28 कर्मचारी लाभ व्यय		
वेतन, मजदूरी, बोनस और भत्ते	6308.74	5621.71
भविष्य निधि और अन्य कोषों में योगदान	798.20	725.61
कार्मिक तथा कर्मचारी कल्याण व्यय	942.30	860.96
	8049.24	7208.28
29 वित्तीय लागत		
बैंक उधार पर ब्याज	25.14	64.35
ब्याज अन्य	562.74	43.07
	587.88	107.42
30 मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यहास	731.13	759.83
पट्टा परिसंपत्तियों पर परिशोधन	26.06	54.12
	757.19	813.95

(अन्यथा उल्लेख न किया गया है, सभी राशियाँ लाख रुपए में हैं)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
31 अन्य व्यय		
- विनिर्माण व्यय		
उपभोज्य भंडार एवं कलपुर्जे	143.34	168.69
प्रयोगशाला व्यय	203.10	123.57
बिजली और ईंधन	1097.55	950.84
भवनों की मरम्मत	160.42	69.18
मशीनरी की मरम्मत	246.89	292.14
अनुबंध श्रम प्रभार	1817.57	1683.52
अन्य विनिर्माण व्यय	1093.27	953.72
	4762.14	4241.66
- विक्रय एवं वितरण व्यय		
जावक ढुलाई	752.48	700.01
कमीशन एवं छूट	4297.60	3372.31
विज्ञापन, विक्रय और वितरण व्यय	304.02	314.35
	5354.10	4386.67
- स्थापना व्यय		
किराया	15.20	63.16
दर एवं कर	179.50	183.92
यात्रा एवं सवारी खर्च	634.14	467.78
कानूनी एवं व्यावसायिक प्रभार	130.31	123.42
सामान्य अनुरक्षण खर्च	248.87	248.38
बैंक कमीशन और प्रभार	45.93	21.99
बीमा प्रभार	31.86	30.23
लेखा परीक्षकों को भुगतान लेखा परीक्षक के रूप में	5.55	5.50
संचार व्यय	15.66	16.93
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	43.34	32.35
फुटकर प्राप्य, बट्टे खाते में डाला गया है	9.99	10.99
भर्ती एवं प्रशिक्षण खर्च	4.66	3.09
विविध खर्च	142.17	113.57

(अन्यथा उल्लेख न किया गया है, सभी राशियाँ लाख रुपए में हैं)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
सीएसआर खर्च	63.18	58.32
पट्टा पुनर्मापन हानि	37.29	0.00
अन्य प्रावधान	173.25	340.21
	1780.90	1719.84
	11897.14	10348.17
(दरों और करों में रु.116.44 लाख (पिछले वर्ष रु.87.21 लाख) शामिल हैं बेची गई दवाईयों पर प्रदत्त जीएसटी है, जिसमें जीएसटी क्रेडिट योग्य नहीं है।)		
32 प्रतिधारित अर्जन के तहत अन्य व्यापक आय के घटक		
क (i) मद जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्मापन लाभ / (हानि)	0.68	(65.76)
उप कुल	0.68	(65.76)
क (ii) क (i) पर आयकर	(0.17)	16.55
उप कुल	(0.17)	16.55
	0.51	(49.21)

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

33. आकस्मिक देनदारिया

क. आकस्मिक देनदारियाँ, प्रावधान नहीं की गई:

i) कंपनी के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, में शामिल हैं:

प्रकृति	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
बिक्री कर: सांविधिक प्रपत्रों की अप्राप्ति के लिए बिक्री कर में अंतर	18.93	18.93
बिक्री कर: पूर्व वर्षों से संबंधित विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष अपील में लंबित बिक्री कर के प्रति देयता:		
1. गेज और पट्टियाँ, फ़ीड की खुराक, अस्वीकृत निर्यात बिक्री और वित्तीय वर्ष 1999-00 के लिए अधिरोपित कर (एलएसटी)	7.33	7.33
2. गेज और पट्टियाँ, फ़ीड की खुराक, अस्वीकृत निर्यात बिक्री और वित्तीय वर्ष 1999-00 के लिए अधिरोपित कर (सीएसटी)	0.19	0.19
3. गेज और पट्टियाँ, फ़ीड की खुराक, अस्वीकृत निर्यात बिक्री और वित्तीय वर्ष 2000-01 के लिए अधिरोपित कर (एलएसटी)	7.14	7.14
4. गेज और पट्टियाँ, फ़ीड की खुराक, अस्वीकृत निर्यात बिक्री और वित्तीय वर्ष 2000-01 के लिए अधिरोपित कर (सीएसटी)	3.73	3.73
5. अन्य दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया		
क. कर्मचारी कानूनी मामले	72.00	90.00
ख. मेसर्स अंकुर ड्रग्स एंड फार्मा लिमिटेड के पक्ष में मध्यस्थता पुरस्कार	-	502.02
सिटी सिविल कोर्ट ने 01.08.2022 को मध्यस्थता पुरस्कार को बरकरार रखा है।		

ख. पूँजी खाते (अग्रिमों का निवल) पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष अनुबंधों की अनुमानित और मान्य न प्राप्त राशि ₹10782.25 लाख (गत वर्ष ₹254.04 लाख) है।

भारत सरकार ने ₹27500 लाख की अनुमानित लागत पर उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के तहत 7-एसीए (अमीनोसेफालोस्पोरेनिक एसिड) के निर्माण के लिए इकाई के निर्माण की योजना को मंजूरी दे दी है।

34. कर्मचारी हितलाभ:

(क) **उपदान योजना :** कंपनी की एक परिभाषित लाभ योजना है जो उपदान भुगतान प्रदान करती है। कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ सामूहिक उपदान योजना मास्टर पॉलिसी ली है। उपदान नीति पात्र कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति पर एकमुश्त उपदान भुगतान प्रदान करती है। भुगतान की राशि संबंधित कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन और कंपनी के साथ रोजगार के वर्षों पर आधारित है।

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

भारतीय लेखांकन मानक 19 के तहत आवश्यक उपदान (वित्त पोषित) योजना की स्थिति निम्न तालिका में निर्धारित की गई।

मान्यता प्राप्त व्यय	31 मार्च 2023 पर	31 मार्च 2022 पर
वर्तमान सेवा लागत	189.58	177.28
ब्याज लागत	259.53	254.10
योजना परिसंपत्तियों की प्रत्याशित वापसी	(240.18)	(234.56)
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	208.93	196.82

दायित्व के वर्तमान मूल्य और योजना परिसंपत्ति के उचित मूल्य का मिलान	31 मार्च 2023 पर	31 मार्च 2022 पर
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	3431.40	3182.57
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	(3694.15)	(3644.77)
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त संपत्ति/(देयता)	(262.75)	(462.20)

दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	उपदान	
	31 मार्च 2023 पर	31 मार्च 2022 पर
प्रारम्भिक परिभाषित दायित्व	3644.77	3602.21
ब्याज लागत	259.53	254.10
वर्तमान सेवा लागत	189.58	177.28
प्रदत्त लाभ	(359.44)	(419.46)
पुनर्मापन के कारण:		
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	0.00
वित्तीय मान्यताओं में बदलाव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	44.92	(70.86)
अनुभव परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	(85.21)	101.50
अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	3694.15	3644.77

योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	31 मार्च 2023 पर	31 मार्च 2022 पर
वर्ष के प्रारम्भ में योजना परिसंपत्तियाँ, उचित मूल्य पर	3182.57	3280.02
योजना परिसंपत्तियों पर अनुमानित वापसी (अनुमानित)	240.18	234.56
योगदान	407.70	122.57
स्थायी लाभ	(359.44)	(419.46)
योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/हानि	(39.61)	(35.12)
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियाँ, उचित मूल्य पर	3431.40	3182.57

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त दायित्व में संचलन	31 मार्च 2023 पर	31 मार्च 2022 पर
प्रारम्भिक देयता	462.20	322.19
लाभ व हानि में मान्यता प्राप्त व्यय	208.93	196.82
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त पुनर्मापन प्रभाव	(0.68)	65.76
प्रदत्त अंशदान	(407.70)	(122.57)
अंतिम देयता	262.75	462.20

अन्य व्यापक आय	31 मार्च 2023 पर	31 मार्च 2022 पर
बीमांकिक हानि/(लाभ):		
- जनसांख्यिकीय मान्यताओं में बदलाव के कारण	0.00	0.00
- वित्तीय मान्यताओं में बदलाव के कारण	44.92	(70.86)
- अनुभव परिवर्तन के कारण	(85.21)	101.50
योजना परिसंपत्तियों पर वापसी छूट दर (से अधिक)/से कम	39.61	35.12
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल पुनर्मापन प्रभाव	(0.68)	65.76

मूल्यांकन तिथि पर मान्यताएं	31 मार्च 2023 पर	31 मार्च 2022 पर
छूट कारक	7.55%	7.49%
वेतन वृद्धि दर	9.00%	8.44%
योजना परिसंपत्तियों पर वापसी की दर (अपेक्षित)	7.49%	7.49%
संघर्षण दर	10.00%	10.00%
मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2012-14) (अंतिम)	

संवेदनशीलता विश्लेषण	31 मार्च 2023 पर	31 मार्च 2022 पर
31.03.2023 तक महत्वपूर्ण मान्यताओं के लिए एक मात्रात्मक संवेदनशीलता विश्लेषण निम्नानुसार है:	डीबीओ में वृद्धि/कमी	डीबीओ में वृद्धि/कमी
छूट दर + 100 आधार अंक	(200.09)	(202.42)
छूट दर - 100 आधार अंक	224.67	227.34
वेतन वृद्धि + 100 आधार अंक	101.66	122.82
वेतन वृद्धि - 100 आधार अंक	(113.10)	(130.02)
संघर्षण दर + 100 आधार अंक	(8.93)	(8.64)
संघर्षण दर - 100 आधार अंक	10.24	10.06
मृत्यु दर 10% ऊपर	(0.20)	(0.31)

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

योजना परिसंपत्तियों का विभाजन: 31 मार्च, 2023 तथा 31 मार्च 2022 के अनुसार संपत्ति श्रेणी के आधार पर उपदान योजना की भारत-औसत संपत्ति आबंटन निम्नानुसार था:

विवरण	31 मार्च 2023 पर	31 मार्च 2022 पर
बीमा कंपनियों द्वारा प्रबंधित निधि	100%	100%
अन्य	-	-

31 मार्च, 2023 को उपदान के संबंध में अपेक्षित भावी नकदी प्रवाह इस प्रकार था:

संवेदनशीलता विश्लेषण	31 मार्च 2023 पर	31 मार्च 2022 पर
प्रत्याशित योगदान		
वर्ष के अंत के दौरान	122.72	129.84
प्रत्याशित भावी लाभ भुगतान		
31 मार्च 2023	-	427.63
31 मार्च 2024	524.81	487.33
31 मार्च 2025	486.36	454.75
31 मार्च 2026	487.33	458.96
31 मार्च 2027	419.70	395.01
31 मार्च 2028	375.98	-
अगले 5 वर्ष के भुगतान (31 मार्च 2028-2032 को समाप्त वर्ष)	1316.41	1489.97
दस वर्ष से अधिक भुगतान	2801.86	2648.20
31.03.2023 के अनुसार निहित लाभ दायित्व	3638.42	3613.29

(ख) भविष्य निधि लाभ: कंपनी ने 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 को समाप्त को समाप्त वर्ष के दौरान भविष्य निधि योजना में क्रमशः ₹587.71 लाख और ₹528.79 लाख का योगदान दिया।

(ग) क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति: अर्जित अवकाश दायित्व के लिए कंपनी द्वारा दर्ज की गई कुल देयता 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 तक क्रमशः ₹1989.58 लाख और ₹1788.95 लाख थी। बीमारी छुट्टी दायित्व के लिए कंपनी द्वारा दर्ज की गई कुल देयता 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 तक क्रमशः ₹392.61 लाख और ₹387.11 लाख थी।

(घ) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस): कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कर्मचारियों के लिए वीआरएस को मंजूरी नहीं दी है।

(ङ) सेवानिवृत्ति के उपरांत चिकित्सा योजना: भारत सरकार के आदेशों के अनुपालन में, बोर्ड ने अपनी 171वीं बैठक में 01.01.2017 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों के या उनके पति या पत्नी (सेवा काल में देहांत कर्मचारी) के लिए केएपीएल सेवानिवृत्ति के उपरांत स्वास्थ्य बीमा योजना नामक योजना को शुरू करने की मंजूरी दे दी। आदेश के अनुसार अधिकतम योगदान कर पूर्व लाभ का 1.50% है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹5.00 (पिछले वर्ष ₹5.00 लाख) प्रदान किए गए हैं। कंपनी ने इस योजना को संचालित करने के लिए एक ट्रस्ट बनाया है।

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

35. खंड जानकारी

कंपनी मुख्य रूप से फार्मास्यूटिकल फॉर्मूलेशन के विनिर्माण और विपणन के एकल व्यवसाय खंड में लगी हुई है और इसकी विभिन्न गतिविधियों के लिए एक इकाई के रूप में प्रबंधित किया जाता है, और जोखिमों और वापसी के समान सेट द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसलिए, रिपोर्ट करने योग्य कोई प्राथमिक खंड नहीं हैं।

भौगोलिक खंड: प्रबंधन की दृष्टि में, भारतीय और निर्यात बाजार भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

बाजार द्वारा बिक्री: भौगोलिक बाजार द्वारा कंपनी की बिक्री का वितरण निम्नलिखित है:

भौगोलिक खंड	2022-23	2021-22
भारत	48516.77	44928.85
भारत के बाहर	4240.57	2458.57
कुल	52757.34	47387.42

खंड परिसंपत्तियों की मूल कीमत:

भौगोलिक खंड	2022-23	2021-22
भारत	40546.03	38356.81
भारत के बाहर	500.75	377.80
कुल	41046.78	38734.61

एक से अधिक अवधि के दौरान उपयोग के लिए प्रत्याशित खंड संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का अधिग्रहण करने की उम्मीद के साथ वर्ष के दौरान हुए कुल लागत निम्नानुसार है:

भौगोलिक खंड	भारत 2022-23	भारत के बाहर 2022-23	भारत 2021-22	भारत के बाहर 2021-22
मूर्त परिसंपत्तियाँ	1557.34	-	643.21	-
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-

36. प्रति शेयर अर्जन की गणना (मूल और तनुकृत)

विवरण	2022-23	2021-23
1. इक्विटी शेयरों की संख्या	13,49,000	13,49,000
2. इक्विटी शेयरों का नाममात्र मूल्य (₹ में)	₹ 100.00	₹ 100.00
3. इक्विटी शेयरों के लिए कारण बने निवल लाभ	₹ 2,488.79	₹ 2,465.82
4. मूल और तनुकृत ईपीएस (₹ में)	₹ 184.49	₹ 182.79

37. पट्टा:**(I) एक पट्टेदार के रूप में कंपनी****पट्टे:**

एक अनुबंध एक पट्टा है, या इसमें शामिल है, यदि अनुबंध किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को विचार के बदले में समय की अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

परिचालन पट्टा प्रतिबद्धताएं – कंपनी पट्टेदार के रूप में

कंपनी की पट्टा परिसंपत्ति वर्ग में मुख्य रूप से भवन के लिए पट्टा शामिल है, जिसे 01.07.2021 से पट्टे पर लिया गया है। कंपनी पट्टा शुरू होने की तारीख पर पट्टे की अवधि के लिए अंतर्निहित परिसंपत्ति का उपयोग करने के अपने अधिकार का प्रतिनिधित्व करने वाली उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति को मान्यता देती है। स्थापना के समय मापी गई उपयोग के अधिकार की संपत्ति की लागत में प्रारंभ की तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता के प्रारंभिक माप की राशि शामिल होगी, जिसमें प्राप्त कोई पट्टा प्रोत्साहन, साथ ही अंतर्निहित परिसंपत्ति को हटाने या हटाने या अंतर्निहित परिसंपत्ति या साइट को पुनर्स्थापित करने में पट्टेदार द्वारा खर्च की जाने वाली लागत का अनुमान कोई प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत शामिल होगी। उपयोग के अधिकार की संपत्ति को बाद में किसी भी संचित मूल्यहास, संचित हानि हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर मापा जाता है और पट्टे की देयता के किसी भी पुनर्मापन के लिए समायोजित किया जाता है। उपयोग के अधिकार की संपत्ति का मूल्यहास शुरू होने की तारीख से सीधी-रेखा पद्धति का उपयोग करके पट्टे की अवधि से कम या उपयोग के अधिकार की संपत्ति के उपयोगी जीवन पर किया जाता है। उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन का निर्धारण उसी आधार पर किया जाता है जैसे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के आधार पर किया जाता है। जब भी कोई संकेत मिलता है कि उनकी मूल कीमत वसूली योग्य नहीं हो सकती है, तो उपयोग के अधिकार की संपत्ति की हानि के लिए परीक्षण किया जाता है। क्षति हानि, यदि कोई हो, को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है। कंपनी पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता को मापती है जो कि पट्टे की प्रारंभ तिथि पर भुगतान नहीं किया जाता है। पट्टा भुगतान को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है, यदि वह दर आसानी से निर्धारित की जा सकती है। यदि उस दर को आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो कंपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करती है।

कंपनी ने इंड एस 116 पट्टों की आवश्यकताओं को उन सभी परिसंपत्तियों के अल्पकालिक पट्टों पर लागू नहीं करने के लिए चुना है जिनकी पट्टे की अवधि 12 महीने या उससे कम है और ऐसे पट्टे जिनके लिए अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की है। इन पट्टों से जुड़े पट्टा भुगतानों को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

उपयोग के अधिकार की परिसंपत्तियाँ मूल्यहास प्रारंभ तिथि से पट्टे की अवधि और अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर एक सीधी रेखा पद्धति पर किया जाता है। पट्टे की देयता को प्रारंभ में भविष्य के पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतान को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके या, यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो इन पट्टों के अधिवास के देश में वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके छूट दी जाती है। पट्टे की देयता को उपयोग संपत्ति के संबंधित अधिकार के लिए एक समान समायोजन के साथ फिर से मापा जाता है यदि समूह अपना मूल्यांकन बदलता है यदि वह विस्तार या समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगा। इसी समायोजन के साथ फिर से मापा जाता है। पट्टे की देयता को शुरू में भविष्य के पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतान को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके या, यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो इन पट्टों के मौलिक देश में वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके छूट दी जाती है। पट्टे की देयताओं को इसी समायोजन के साथ फिर से मापा जाता है।

पट्टा देयता और आरओयू परिसंपत्ति को अलग-अलग तुलन पत्र में प्रस्तुत किया गया है और पट्टा भुगतान को नकदी प्रवाह के वित्तपोषण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

उपयोग के अधिकार का वहन मूल्य

विवरण	मार्च 31, 2023	मार्च 31, 2022
प्रारंभिक शेष – सकल ब्लॉक	362.63	0.00
जोड़ें: जोड़	738.88	362.63
घटाएँ : पुनः मापन	19.16	0.00
घटाएँ : संचित मूल्यहास	87.21	54.12
अंतिम शेष	995.14	308.51

पट्टे की देयताओं में संचलन

विवरण	मार्च 31, 2023	मार्च 31, 2022
प्रारंभिक शेष	308.76	0.00
जोड़ें: जोड़	360.76	343.91
घटाएँ : पुनः मापन	7.49	0.00
घटाएँ : पट्टा देनदारियों का भुगतान	54.39	35.15
अंतिम शेष	622.62	308.76

चालू और गैर – चालू पट्टे की देयताओं का ब्योरा

विवरण	मार्च 31, 2023	मार्च 31, 2022
गैर-वर्तमान पट्टा देयताएँ	554.17	225.04
वर्तमान पट्टा देयताएँ	68.25	83.72
कुल	622.62	308.76

पट्टे की देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण

विवरण	मार्च 31, 2023	मार्च 31, 2022
एक वर्ष से कम	68.25	83.72
एक से पांच वर्ष	193.68	225.04
पांच वर्षों से अधिक	360.69	0.00
कुल	622.62	308.76

38. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर व्यय

- (क) खर्च करने के लिए आवश्यक सकल राशि – ₹ 63.18 लाख (गत वर्ष – ₹ 58.32 लाख)
 (ख) निम्नलिखित पर वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:

क्रम सं.	विवरण	प्रदत्त	प्रदत्त करने योग्य	कुल
(i)	किसी भी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	शून्य (गत वर्ष शून्य)	शून्य (गत वर्ष शून्य)	शून्य (गत वर्ष शून्य)
(ii)	ऊपर (i) के इतर अन्य उद्देश्यों पर	63.18 (गत वर्ष 58.32)	शून्य (गत वर्ष शून्य)	63.18 (गत वर्ष 58.32)

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(i) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च करने हेतु अपेक्षित राशि	63.18	58.32
(ii) खर्च की गई राशि	63.18	58.32
(iii) वर्ष के अंत में कमी	0.00	0.00
(iv) पिछले वर्षों की कुल कमी	0.00	0.00
(v) कमी का कारण	-	-
(vi) सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति	स्वास्थ्य एवं शिक्षा	स्वास्थ्य
(vii) संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण, उदाहरण के लिए, सीएसआर के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट में योगदान प्रासंगिक लेखा मानक के अनुसार व्यय	-	-
(viii) जहां एक संविदात्मक दायित्व में प्रवेश करके किए गए दायित्व के संबंध में प्रावधान किया जाता है, वर्ष के दौरान प्रावधान में संचालनों को अलग से दर्शाया जाएगा।	-	-

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

39. उचित मूल्य मापन

(क) कंपनी के वित्तीय साधनों, जिन राशियों के अलावा जो उचित मूल्य का उचित अनुमान लगाते हैं, की मूल कीमत और उचित मूल्य के वर्ग की तुलना नीचे निर्धारित है:

31 मार्च, 2023 पर

विवरण	अमूर्त लागत	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई)	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)	कुल मूल कीमत	कुल उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियाँ:					
- प्राप्त व्यापार	12312.07	0.00	0.00	12312.07	12312.07
- नकद और नकद समतुल्य	1478.26	0.00	0.00	1478.26	1478.26
- अन्य बैंक शेष राशि	4788.02	0.00	0.00	4788.02	4788.02
- ऋण	98.35	0.00	0.00	98.35	98.35
- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	627.43	0.00	0.00	627.43	627.43
कुल	19304.13	0.00	0.00	19304.13	19304.13
वित्तीय देयताएं					
- उधार	75.68	0.00	0.00	75.68	75.68
- व्यापार देनदारियाँ					
■ सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय	2420.65	0.00	0.00	2420.65	2420.65
■ अन्यो को देय	7144.67	0.00	0.00	7144.67	7144.67
- अन्य वित्तीय देयताएं	622.62	0.00	0.00	622.62	622.62
- अन्य वित्तीय देयताएं	794.42	0.00	0.00	794.42	794.42
कुल	11058.04	0.00	0.00	11058.04	11058.04

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

31 मार्च, 2022 पर

विवरण	अमूर्त लागत	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई)	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)	कुल मूल कीमत	कुल उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियाँ:					
- प्राप्य व्यापार	14839.19	0.00	0.00	14839.19	14839.19
- नकद और नकद समतुल्य	1164.63	0.00	0.00	1164.63	1164.63
- अन्य बैंक शेष राशि	3325.48	0.00	0.00	3325.48	3325.48
- ऋण	112.35	0.00	0.00	112.35	112.35
- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	591.14	0.00	0.00	591.14	591.14
कुल	20032.79	0.00	0.00	20032.79	20032.79
वित्तीय देयताएं					
- उधार	375.68	0.00	0.00	375.68	375.68
- व्यापार देनदारियाँ					
• सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि	2647.00	0.00	0.00	2647.00	2647.00
• अन्यो को देय राशि	6211.86	0.00	0.00	6211.86	6211.86
- अन्य वित्तीय देयताएं	308.76	0.00	0.00	308.76	308.76
- अन्य वित्तीय देयताएं	714.06	0.00	0.00	714.06	714.06
कुल	10257.36	0.00	0.00	10257.36	10257.36

उचित मूल्य पदानुक्रम

स्तर 1 - समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (अनसमायोजित)

स्तर 2 - स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों के अलावा अन्य इनपुट जो परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष रूप से (यानी, मूल्यों के रूप में) या परोक्ष रूप से (यानी, मूल्यों से प्राप्त) देखने योग्य हैं।

स्तर 3 - परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए इनपुट जो कि अवलोकन योग्य बाजार डेटा (अदृश्य इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

40. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की गतिविधियाँ कई तरह के वित्तीय जोखिमों को प्रकाश में लाती हैं, जिसमें बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और चलनिधि जोखिम शामिल हैं। कंपनी के प्राथमिक जोखिम प्रबंधन का ध्यान अपने वित्तीय प्रदर्शन पर बाजार के जोखिम के संभावित प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है। कंपनी के जोखिम प्रबंधन मूल्यांकन और नीतियाँ और प्रक्रियाएं कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिमों की पहचान करने और उनका विश्लेषण करने, उचित जोखिम सीमाएं और नियंत्रण निर्धारित करने और ऐसे जोखिमों की निगरानी और उसके अनुपालन के लिए स्थापित की जाती हैं। जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन नीतियों और प्रक्रियाओं की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है ताकि बाजार की स्थितियों और कंपनी की गतिविधियों में परिवर्तन को प्रतिबिंबित किया जा सके। निदेशक मंडल और लेखा परीक्षा समिति कंपनी के जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन नीतियों और प्रक्रियाओं की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। यह कंपनी की नीति है कि अव्यवहार्य प्रयोजनों के लिए व्युत्पन्न में कोई भी व्यापार नहीं किया जा सकता है।

क. क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम कंपनी को वित्तीय नुकसान का जोखिम है यदि ग्राहक या वित्तीय साधन के प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, और मुख्य रूप से ग्राहकों से कंपनी की प्राप्तियों से उत्पन्न होता है। क्रेडिट जोखिम को क्रेडिट अनुमोदन के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है, क्रेडिट सीमा की स्थापना की जाती है और ग्राहकों की क्रेडिट योग्यता की निरंतर निगरानी की जाती

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

है, जिसके लिए कंपनी व्यवसाय के सामान्य क्रम में क्रेडिट की शर्तों को अनुदान देती है। कंपनी क्रेडिट हानि और क्षति के लिए एक भत्ता स्थापित करती है जो निवेश, व्यापार और अन्य प्राप्तियों के संबंध में अपेक्षित नुकसान के अपने अनुमान का प्रतिनिधित्व करती है।

व्यापार और अन्य प्राप्य

क्रेडिट जोखिम के लिए कंपनी का प्रदर्शन मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होता है। ग्राहक की जनसांख्यिकी, जिसमें उद्योग और उस देश का व्यतिक्रम जोखिम शामिल है जिसमें ग्राहक संचालित होता है, का भी क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता है। क्रेडिट जोखिम को क्रेडिट अनुमोदन के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है, क्रेडिट सीमा की स्थापना की जाती है और ग्राहकों की क्रेडिट योग्यता की निरंतर निगरानी की जाती है, जिसके लिए कंपनी व्यवसाय के सामान्य क्रम में क्रेडिट की शर्तों को अनुदान देती है।

वित्तीय परिसंपत्तियां जो न तो विगत में देय हैं और न ही क्षति है

बैंकों के पास सावधि जमा (यानी, जमाराशि के प्रमाण पत्र) सहित कंपनी का कोई भी नकद समतुल्य 31 मार्च, 2023 तक विगत में देय या क्षति नहीं है।

वित्तीय परिसंपत्तियां जो विगत में देय पर क्षतिग्रस्त नहीं है

ग्राहकों के लिए कंपनी की क्रेडिट अवधि आमतौर पर 30 से 180 दिनों तक होती है। प्राप्य व्यापार की उम्र जो विगत में देय पर क्षतिग्रस्त नहीं है, का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	2022-23	2021-22
< 6 महीने	9858.95	11124.71
> 6 महीने से 1 वर्ष	933.70	1528.98
> 1 वर्ष से < 2 वर्ष	1190.48	1399.06
> 2 वर्ष और उससे अधिक	328.94	786.44
कुल	12312.07	14839.19

प्राप्य व्यापार के अलावा, कंपनी के पास वित्तीय परिसंपत्तियों का कोई महत्वपूर्ण श्रेणी नहीं है जो विगत में देय पर क्षतिग्रस्त नहीं है।

ऋण घाटे के लिए भत्तों का मिलान

31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान ऋण घाटे के लिए भत्ते में बदलाव के विवरण इस प्रकार हैं:

विवरण	31-मार्च-23	31-मार्च-22
1 अप्रैल को शेष राशि	526.55	377.24
वर्ष के दौरान किए गए जोड़	251.41	240.00
वर्ष के दौरान किया गया उत्क्रमण	(108.07)	(90.69)
31 मार्च को शेष राशि	669.89	526.55

भारतीय लेखांकन मानक 109 को अपनाने के कारण, कंपनी क्रेडिट हानि का आकलन करने के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल का उपयोग करती है। इस उद्देश्य के लिए, कंपनी व्यापार प्राप्तियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि राशि की गणना करने के लिए एक प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग करती है। प्रावधान मैट्रिक्स बाहरी और आंतरिक क्रेडिट जोखिम कारकों और विभिन्न ग्राहकों के क्रेडिट घाटे के ऐतिहासिक डेटा को ध्यान में रखता है। प्रबंधन का मानना है कि 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान क्रेडिट हानि के लिए भत्ता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

ऋण और अग्रिम

ऋण और अग्रिम मुख्य रूप से कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों (ईएमडी) और ठेकेदारों को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए दिए जाते हैं। 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान संदिग्ध ऋण और अग्रिमों के प्रावधान में परिवर्तन का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	2022-23	2021-22
अप्रैल को शेष राशि	7.12	7.12
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		
वर्ष के दौरान बढ़े खाते में लिखा ऋण और अग्रिम		
वर्ष के दौरान प्रावधान वापस लिखा गया		
विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव		
31 मार्च को शेष राशि	7.12	7.12

ख. चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम वह जोखिम है जो कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगी क्योंकि वे देय हो जाते हैं। जहाँ तक संभव हो, कंपनी अपनी चलनिधि जोखिम का प्रबंधन इस प्रकार करती है कि यह हमेशा अपनी देयताओं को, दोनों सामान्य या तनावपूर्ण परिस्थितियों में, कंपनी की प्रतिष्ठा के लिए अस्वीकार्य नुकसान या जोखिम के बिना पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता होगी।

प्रबंधन कंपनी की चलनिधि की स्थिति (नीचे अनाहरित उधार सुविधाओं सहित) और अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर नकदी समतुल्यों के रोलिंग पूर्वानुमान की निगरानी करता है। यह आमतौर पर प्रबंधन द्वारा निर्धारित अभ्यास और सीमाओं के अनुसार कंपनी के परिचालन क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर किया जाता है। उक्त सीमाएँ बाज़ार में उस बाज़ार की चलनिधि को ध्यान में रखते हुए बदलती हैं जिसमें इकाई संचालित होती है। इसके अलावा, कंपनी की चलनिधि प्रबंधन नीति में प्रमुख मुद्राओं में नकदी प्रवाह का अनुमान लगाना और इनका वहन करने के लिए आवश्यक तरल संपत्तियों के स्तर पर विचार करना, आंतरिक और बाहरी नियामक आवश्यकताओं के विरुद्ध तुलन पत्र चलनिधि अनुपात की निगरानी करना और ऋण वित्तपोषण योजनाओं को बनाए रखना शामिल है।

रिपोर्टिंग वर्षों के अंत में कंपनी के पास निम्नप्रकार कार्यशील पूंजी थी:

विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 22
चालू परिसंपत्तियाँ (क)	28251.38	30062.11
चालू देयताएं (ख)	13958.44	13839.06
कार्यशील पूंजी (ग) = (क-ख)	14292.94	16223.05

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

नीचे दी गई तालिका महत्वपूर्ण देनदारियों के अनुबंध संबंधी परिपक्वताओं के बारे में विवरण प्रदान करती है :

31 मार्च, 2023 के अनुसार

विवरण	2024	2025	2026	2027	उसके बाद	कुल
गैर - चालू उधार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
व्यापार देनदारियां	9565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	9565.32
वर्तमान उधार	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00	75.68
अन्य वित्तीय देयताएं	794.42	0.00	0.00	0.00	0.00	794.42
पट्टे की देयताएं	68.25	78.85	90.62	24.19	360.71	622.62
कुल	10503.67	78.85	90.62	24.19	360.71	11058.04

31 मार्च, 2022 के अनुसार

विवरण	2023	2024	2025	2026	उसके बाद	कुल
गैर - चालू उधार	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
व्यापार देनदारियां	8858.86	0.00	0.00	0.00	0.00	8858.86
वर्तमान उधार	300.68	0.00	0.00	0.00	0.00	300.68
अन्य वित्तीय देयताएं	714.06	0.00	0.00	0.00	0.00	714.06
पट्टे की देयताएं	54.40	64.67	76.26	89.33	24.10	308.76
कुल	9928.00	139.67	76.26	89.33	24.10	10257.36

ग. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम भविष्य का अर्जन, उचित मूल्यों या भावी नकदी प्रवाह के नुकसान का जोखिम है जो बाजार दरों और कीमतों (जैसे ब्याज दर, विदेशी मुद्रा विनिमय दर और कमोडिटी की कीमत) में या बाजार जोखिम-संवेदनशील उपकरणों की कीमत में प्रतिकूल परिवर्तनों के परिणामस्वरूप हो सकता है, इस तरह के प्रतिकूल परिवर्तनों के परिणामस्वरूप बाजार दरों और कीमतों में भी प्रभाव पड़ते हैं। बाजार जोखिम सभी बाजार जोखिम-संवेदनशील वित्तीय साधनों, सभी प्राप्य विदेशी मुद्रा और देय तथा सभी अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण के लिए जिम्मेदार है। कंपनी मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा दर जोखिम और ब्याज दर जोखिम से संबंधित बाजार जोखिम के संपर्क में है। इस प्रकार, बाजार जोखिम के लिए कंपनी का निवेश विदेशी मुद्राओं में निवेश और उधार गतिविधियों और राजस्व सृजन और परिचालन गतिविधियों का एक कार्य है।

घ. विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी का विदेशी मुद्रा जोखिम उसके विदेशी मुद्रा राजस्व और व्यय से उत्पन्न होता है, (मुख्य रूप से यूएस में)। विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त संपत्तियों और देनदारियों से उत्पन्न होता है जो एक कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (भारतीय रुपए) नहीं है। कंपनी के निर्यात राजस्व का एक महत्वपूर्ण अंश इस विदेशी मुद्रा में है, जबकि इसकी लागत का एक महत्वपूर्ण अंश भारतीय रुपए में है। परिणामस्वरूप, यदि भारतीय रुपए का मूल्य इन विदेशी मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यांकित करता है, तो भारतीय रुपए में मापा गया कंपनी का राजस्व घट सकता है। भारतीय रुपए और इन विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर में हालिया समय में काफी बदलाव आया है और भविष्य में इसमें काफी उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है।

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

निम्न तालिका 31 मार्च 2023 तक गैर-व्युत्पन्न वित्तीय साधनों से भारतीय रुपये में विदेशी मुद्रा जोखिम का विश्लेषण करती है।

(\$ लाखों में)

विवरण	यूएस \$	अन्य	कुल
परिसंपत्तियाँ			
प्राप्य व्यापार	5.99	-	5.99
कुल	5.99		5.99
देयताएं			
व्यापार देनदारियां	-	-	-
कुल	-	-	-

निम्न तालिका 31 मार्च 2022 तक गैर-व्युत्पन्न वित्तीय साधनों से भारतीय रुपये में विदेशी मुद्रा जोखिम का विश्लेषण करती है।

(\$ लाखों में)

विवरण	यूएस \$	अन्य	कुल
परिसंपत्तियाँ			
प्राप्य व्यापार	2.75	-	2.75
कुल	2.75		2.75
देयताएं			
व्यापार देनदारियां	-	-	-
कुल	-	-	-

निम्न तालिका गैर-व्युत्पन्न वित्तीय साधनों से विदेशी मुद्रा जोखिम का विश्लेषण करती है:

विवरण	लाभ पर प्रभाव	
	31-मार्च-23	31-मार्च-22
अमरीकी डालर संवेदनशीलता		
₹ / यूएसडी - 2% की वृद्धि	9.85	4.18
₹ / यूएसडी - 2% की कमी	(9.85)	(4.18)

ड. ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो एक वित्तीय साधन के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण उतार-चढ़ाव होगा। कंपनी की निर्धारित दर उधार राशि को परिशोधन लागत पर ले जाया जाता है। इसलिए वे भारतीय लेखांकन मानक 107 में परिभाषित ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं हैं, चूंकि न तो मूल कीमत और न ही भविष्य के नकदी प्रवाह में बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण उतार-चढ़ाव होगा। इसके अलावा, जमाओं में कंपनी का निवेश बैंकों और विद्युत प्राधिकारियों के साथ है और इसलिए कंपनी को महत्वपूर्ण ब्याज दरों के जोखिम के बारे में प्रकट नहीं होते हैं।

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

कंपनी की परिवर्तनीय दर उधार ब्याज दर जोखिम पर निर्भर है। निश्चित दर और परिवर्तनीय दर उपकरणों के संबंध का विवरण नीचे दिया जाता है:

विवरण	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
नियत दर उपकरण		
वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
वित्तीय देयताएं	75.68	375.68
परिवर्तनीय दर उपकरण		
वित्तीय देयताएं	0.00	0.00

सावधि जमा में कंपनी का निवेश बैंकों के साथ है और इसलिए इसलिए कंपनी को महत्वपूर्ण ब्याज दरों के जोखिम के बारे में प्रकट नहीं होते हैं।

उपयोगी वस्तु दर जोखिम

उपयोगी वस्तुओं की कीमतों के संबंध में बाजार जोखिम के लिए प्रकटन मुख्य रूप से कंपनी की खरीद और सक्रिय दवा सामग्री और निर्मित खुराक योगों की बिक्री से उत्पन्न होता है, जिसमें इस तरह के सक्रिय दवा सामग्री और निर्मित खुराक के लिए आवश्यक कच्चे माल के घटक भी शामिल हैं। ये उपयोगी वस्तुओं के उत्पाद हैं, जिनकी कीमतें कम समय के लिए काफी उतार-चढ़ाव हो सकती हैं। कंपनी के कच्चे माल की कीमतों में आम तौर पर उपयोगी वस्तुओं के चक्रों के साथ उतार-चढ़ाव होता है, हालांकि कंपनी के सक्रिय दवा सामग्री व्यवसाय में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल की कीमतें आम तौर पर अधिक अस्थिर होती हैं। कच्चे माल की लागत कंपनी के परिचालन खर्च का सबसे बड़ा अंश बनता है। उपयोगी वस्तुओं के मूल्य दर जोखिम का मूल्यांकन और संचालन प्रक्रियाओं और स्रोतन नीतियों के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। 31 मार्च 2023 तक, उपयोगी वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव के जोखिम के बचाव के लिए कंपनी ने किसी भी व्युत्पन्न अनुबंध में प्रवेश नहीं किया था।

41. पूंजी प्रबंधन

पूंजी का प्रबंधन करते समय कंपनी के उद्देश्य लाभकारी कारोबार वाला संस्थान के रूप में जारी रखना है, ताकि वे शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के लिए लाभ प्रदान कर सकें, और पूंजी की लागत को कम करने के लिए एक इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रख सकें। पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश की राशि को समायोजित कर सकती है, शेयरधारकों को पूंजी लौटा सकती है, ऋण को कम करने के लिए नए शेयर जारी कर सकती है या संपत्ति बेच सकती है।

उद्योग में दूसरों के साथ संगत, कंपनी निम्नलिखित गियरिंग अनुपात के आधार पर पूंजी की निगरानी करती है:

कुल इक्विटी प्लस निवल ऋण (जैसा कि तुलन पत्र में दर्शाया गया है) द्वारा विभाजित निवल ऋण (नकद और नकद समकक्षों का कुल उधार)।

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

गियरिंग अनुपात इस प्रकार थे:

विवरण	31-मार्च-23	31-मार्च-22
उधार	75.68	375.68
घटाएँ : नकद और नकद समतुल्य	1478.26	1164.63
निवल ऋण (क)	-	-
इक्विटी शेयर पूंजी	1349.00	1349.00
अन्य इक्विटी	24644.28	22559.68
कुल इक्विटी (ख)	25993.28	23908.68
इक्विटी और निवल ऋण (ग)=(क+ख)	25993.28	23908.68
गियरिंग अनुपात (क/ग)	लागू नहीं	लागू नहीं

इस समग्र उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, कंपनी के पूंजी प्रबंधन को, अन्य बातों के साथ, यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य होना है कि यह पूंजी संरचना आवश्यकताओं को परिभाषित करने वाली उधार से जुड़ी वित्तीय प्रतिज्ञाओं को पूरा करे। वित्तीय प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में उल्लंघनों से बैंक को तुरंत ऋण और उधार लेने की अनुमति मिलेगी। चालू अवधि में किसी भी उधार की वित्तीय प्रतिज्ञाओं में कोई भौतिक उल्लंघन नहीं है।

42. भारतीय लेखा मानक 24 के अंतर्गत संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण

क) केएपीएल भारत सरकार द्वारा 59.17% शेयरों और कर्नाटक राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (केएसआईआईडीसी) के माध्यम से कर्नाटक सरकार द्वारा 40.83% शेयरों के साथ एक संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है। 31.03.2023 तक प्रवर्तकों की हिस्सेदारी इस प्रकार है:

क्रम सं.	शेयरधारकों के नाम	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	संबंध
1.	भारत के राष्ट्रपति	798180	59.17	नियंत्रण
2.	केएसआईआईडीसी	550820	40.83	महत्वपूर्ण प्रभाव
	कुल	1349000	100.00	

सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी को भारतीय लेखा मानक 24 के पैरा 25 के अनुसार सरकार / सरकारी संस्थाओं के साथ संबंधित पक्षकार के लेन-देन के प्रकटीकरण से छूट दी जाती है।

ख) (i) टिप्पणी संख्या 28 के अंतर्गत कर्मचारी लाभ व्यय में श्री सुनील कुमार कैमाल, प्रबंध निदेशक (इंड एस-24 के अनुसार मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक) का पारिश्रमिक निम्नांकित अनुसार शामिल है:

विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
क) वेतन और भत्ते	41.63	37.02
ख) भविष्य निधि में योगदान	3.49	3.17
ग) अन्य	3.71	3.84
कुल	48.83	44.03

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

ख) (ii) टिप्पणी संख्या 28 के अंतर्गत कर्मचारी लाभ व्यय में अन्य मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक निम्नांकित अनुसार शामिल हैं :

विवरण	मुख्य वित्तीय अधिकारी		कंपनी सचिव	
	31-मार्च-23	31-मार्च-22	31-मार्च-23	31-मार्च-22
क) वेतन और भत्ते	20.43	17.60	19.25	17.12
ख) भविष्य निधि में योगदान	1.70	1.51	1.70	1.51
ग) अन्य	1.53	1.39	2.71	0.23
कुल	23.66	20.50	23.66	18.86

ग) अन्य निदेशकों को बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए निम्नानुसार बैठक शुल्क दिया गया है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	31-मार्च-23	31- मार्च -22
1.	श्री टी के अनिल कुमार, आईएएस	0.03	0.03
2.	श्री कृष्ण कुमार पिळ्ळी, आईटीएस	0.01	0.01
3.	श्री के पी मोहन राज, आईएएस	0.00	0.01
4.	श्री बी टी खानापुरे	0.05	0.04
5.	डॉ मधुचंद्र कर	0.90	0.15
6.	डॉ एम आर रवि, आईएएस	0.01	0.00
7.	श्री सुमित गर्ग	0.01	0.00

43. प्रभावी कर की दर का मिलान

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
आयकर से पहले लाभ	3425.40	3251.62
भारत में लागू कर की दर	25.17%	25.17%
गणना की गई कर व्यय	862.17	818.43
कर उद्देश्य के लिए व्यय पर कर (कटौती योग्य)/गैर-कटौती योग्य	131.79	(32.39)
पिछले वर्षों के लिए कर समायोजन	(57.35)	(0.24)
आयकर व्यय	936.61	785.80
प्रभावी कर की दर	27.34%	24.17%

44. रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रत्येक ₹100/- के पूर्ण रूप से प्रदत्त इक्विटी शेयर के लिए ₹15/- (गत वर्ष ₹30/-) के लिए कुल मिलाकर ₹15/- (गत वर्ष ₹30/-) के लाभांश की सिफारिश की है, जो 31 मार्च, 2023 को प्रासंगिक शेयर पूंजी पर आधारित है। वास्तविक लाभांश राशि संबंधित शेयर पूंजी पर निर्भर होगी जो अभिलेख की तिथि/बही खाता बंद होने पर बकाया होगी।

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

45. वर्ष के दौरान प्रावधान का संचालन

विवरण	वर्ष के प्रारम्भ में शेष	वर्ष के दौरान प्रदान की गई राशि	वर्ष के दौरान भुगतान की गई/ समायोजित राशि	वर्ष के अंत में शेष
आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान:				
क) विवादित कानूनी मामले	341.25 (340.75)	37.00 (0.50)	140.00 (0)	238.25 (341.25)
कुल	341.25 (340.75)	37.00 (0.50)	140.00 (0)	238.25 (341.25)

46. मूर्त परिसंपत्तियों (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण) पर अतिरिक्त जानकारी:

क: कदबगेरे पर भूमि – बेंगलूरु:

कर्नाटक सरकार ने कदबगेरे गांव, दासनपुरा होबली, बेंगलूरु उत्तर तालुक, बेंगलूरु में सर्वेक्षण नंबर 80 (नई नं.197) में 20 एकड़ भूमि तथा सर्वेक्षण नंबर 22 (नई नं.196) में 4 एकड़ और 20 गुंटा भूमि दी है। सर्वेक्षण नंबर 80 (नई नं.197) के संबंध में आरटीसी प्राप्त किया गया है और सर्वेक्षण संख्या 22 (नई संख्या 196) के संबंध में आरटीसी प्राप्त नहीं किया गया है। (मूल रूप से दी गई भूमि को 10 एकड़ से घटाकर 4 एकड़ 20 गुंटा कर दिया गया था। कर्नाटक सरकार द्वारा 10 एकड़ के लिए जारी मूल आरटीसी उपलब्ध है)। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल 10 एकड़ के लिए राजस्व कर स्वीकार कर लिया गया है, जो 4 एकड़ 20 गुंटा पर केएपीएल के स्वामित्व अधिकारों की पुष्टि करता है। 4 एकड़ 20 गुंटा के लिए उत्परिवर्तन प्रमाणपत्र प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। कंपनी ने उपरोक्त सर्वेक्षण संख्याओं के लिए कर्नाटक सरकार से सर्वेक्षण रिपोर्ट के लिए आवेदन किया था। सर्वेक्षण संख्या 80 (नई नं.197) के संबंध में सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई और लगभग 3 एकड़ और 25 गुंटा की सीमा तक अतिक्रमण की सूचना मिली। सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिखाए गए अतिक्रमण के अलावा, सर्वेक्षण संख्या 80 (नई नं.197) में 1 एकड़ (लगभग) की सीमा तक अतिक्रमण है जिसे सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्शाया नहीं गया है। रिपोर्ट में इस अतिरिक्त अतिक्रमण का उल्लेख करने और सभी अतिक्रमण को हटाने के लिए कंपनी ने राजस्व अधिकारियों के साथ मामला उठाया है। इस बीच, उक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया।

कंपनी ने तब से जमीन के शेष हिस्से को घेरा कर दिया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्शाये गए 3 एकड़ और 25 गुंटा के अतिक्रमण में से, अतिक्रमित पार्टी में से एक ने सिविल जज कोर्ट, बेंगलूरु में कंपनी के विरुद्ध एक सिविल मुकदमा दायर किया है जिसका कंपनी द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा है। इसके बाद, मामले को नेलमंगला स्थानांतरित कर दिया गया। इसके अलावा, दि.19.02.2010 को सम्पन्न अपनी 131वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड ने चरण ख में 10 एकड़ में औषधीय पौधारोपण करने का निर्णय लिया। तदनुसार कदबगेरे भूमि पर औषधीय पौधे उगाए जा रहे हैं।

कंपनी ने आवश्यक शुल्क का भुगतान करके और राजस्व विभाग के साथ लगातार पीछा करके दोनों सर्वेक्षण संख्याओं की भूमि के सर्वेक्षण के लिए आवेदन किया है। कंपनी के प्रबंध निदेशक द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग को संबोधित दि.11-07-2018 और 22-03-2019 के पत्रों द्वारा सर्वेक्षण करने और अतिक्रमण के निष्कासन के लिए अनुरोध किया गया। प्रबंध निदेशक द्वारा शहरी जिला उपायुक्त, बेंगलूरु को भी दि.27-07-2018 और 22-03-2019 के पत्र द्वारा संबोधित किए गए। दि.18-09-2018 को संयुक्त निदेशक भूमि अभिलेख को भी पत्र भेजा गया तथा इसके प्रत्युत्तर में संयुक्त निदेशक भूमि अभिलेख ने अपने दि.11-10-2018 और 21-01-2019 के पत्र द्वारा भूमि अभिलेख के सहायक निदेशक को संबोधित किया। दि.21-03-2019 को फिर से पत्र लिखा गया था और मामले का पालन किया जा रहा है। इसके अलावा हमने दिनांक 29-03-2019 के पत्र द्वारा तहसीलदार, बेंगलूरु उत्तर तालुक को भूमि के सर्वेक्षण के लिए अनुरोध किया है।

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

वर्ष 2019-20 के दौरान प्रबंध निदेशक द्वारा 20.03.2020 को राजस्व विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा गया था और दिनांक 20.03.2020 को कंपनी सचिव और सहायक महाप्रबंधक (प्रशासन) द्वारा तहसीलदार बेंगलूर उत्तर तालुक को पत्र लिखा गया था। वर्ष 2020-21 के दौरान प्रबंध निदेशक द्वारा 29-06-2020, 17-12-2020 और 31-03-2021 को राजस्व विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा गया था और दिनांक 29-06-2020 और 31-03-2021 को उपायुक्त को पत्र लिखा गया था और कंपनी सचिव और सहायक महाप्रबंधक (प्रशासन) द्वारा तहसीलदार, बेंगलूर उत्तर तालुक को पत्र दिनांक 08-07-2020 और 17-12-2020 लिखा गया था और भूमि अभिलेख के सहायक निदेशक को पत्र दिनांक 21-09-2020 लिखा गया था।

वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी सचिव और सहायक महाप्रबंधक (प्रशासन) द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग को 31.03.2022 और उपायुक्त, बेंगलूर शहरी जिला को पत्र लिखा गया था। राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव ने बेंगलूर शहरी जिले के आयुक्त को एक पत्र लिखा, जिसकी प्रति 20.05.2022 को मेसर्स कर्नाटक एंटीबायोटेक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को प्राप्त हुई।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी सचिव और उप महाप्रबंधक (प्रशासन) द्वारा दिनांक 29.11.2022 और 01.02.2023 के पत्र सहायक निदेशक, भूमि अभिलेख, बेंगलूर उत्तर भूमि राजस्व और भूमि अभिलेख विभाग को भेजे गए थे। मामले का अवलोकन किया जा रहा है।

ख. धारवाड़ संयंत्र:

दि.26.09.2016 को सम्पन्न अपनी 157 वीं बैठक में बोर्ड ने कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम (केएसएफसी) की ई-नीलामी के माध्यम से धारवाड़ में (6 एकड़ और 14 गुंटास भूमि पर) फार्मास्यूटिकल इकाई की खरीद को मंजूरी दी थी और बोली राशि तय करने के लिए प्रबंध निदेशक को अधिकृत किया था। तदनुसार, कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम (केएसएफसी) के विजयवाणी दिनांक 24.10.2016 में छपे एक विज्ञापन के आधार पर, कंपनी ने ई-नीलामी में भाग लिया और भूमि और भवन की ओर रु.517.37 लाख की राशि और संयंत्र और मशीनरी की ओर रु.93.64 लाख की राशि उद्धृत किया था। केएसएफसी द्वारा 08.12.2016 दिनांकित पत्र द्वारा कंपनी की बोली स्वीकार की गई थी। बोली राशि का भुगतान करने के बाद, भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी का अधिग्रहण दि.12.12.2016 को जैसा है, वैसा ही के आधार पर किया गया। बोर्ड की मंजूरी के अनुसरण में, नवीकरण की गतिविधियाँ पूरी हुईं और आयुर्वेदिक उत्पादों का निर्माण शुरू किया गया। भूमि एवं भवन के प्रति रु.517.37 लाख के मूल्य का लेखा-जोखा भूमि एवं भवन को अलग-अलग पेशेवर इंजीनियर द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर आबंटित किया गया था, जिन्होंने खारब ए भूमि के 7 गुंटा को छोड़कर 6 एकड़ और 7 गुंटा के लिए भूमि का मूल्यांकन किया है।

पंजीकरण करने से पहले कंपनी ने दि.17.01.2017 को तहसीलदार, धारवाड़ को संबोधित पत्र तथा दि.18.01.2017 को महाप्रबंधक, कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम, बेंगलूर को संबोधित पत्र द्वारा कोत्तूर गाँव, एनएच4, पी.बी.रोड, बेलूर औद्योगिक क्षेत्र के सर्वेक्षण नं.429/1 और सर्वेक्षण नं.429/2ए के सर्वेक्षण करने तथा सीमा तय करने का अनुरोध किया। मेसर्स कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम (केएसएफसी) के पत्र सं.केएसएफसी/बीओ/डीडब्ल्यूआर/2605/2016-17 दिनांक 04.02.2017 के अनुसार, दोनों सर्वेक्षण नं. याने सर्वेक्षण संख्या 429/1 (5 एकड़ और 18 गुंटा) और सर्वेक्षण संख्या 429/2 ए (36 गुंटा) के तहत कुल 6 एकड़ और 14 गुंटा दिखाई गई थी। सर्वेक्षण विभाग को किए गए अनुरोध के आधार पर, भूमि का सर्वेक्षण दि.16.03.2017 को किया गया। सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर, यह देखते हुए कि 26 गुंटा की सीमा तक भूमि की कमी है, केएपीएल ने मेसर्स कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम (केएसएफसी) से अनुरोध किया कि उक्त भूमि की लागत के प्रयोजन के लिए उपलब्ध संशोधित भूमि पर विचार किया जाए तथा अंतर राशि वापस की जाए तथा हमारे नाम पर संपत्ति भी पंजीकृत किया जाए।

उपरोक्त के मद्देनजर, कंपनी निरंतर रूप से मेसर्स केएसएफसी, धारवाड़ और बेंगलूर के साथ हमारे दिनांक 07.06.2017, 05.12.2017 और 29.01.2018 के पत्रों द्वारा अंतर राशि का पुनः भुगतान करने और मेसर्स कर्नाटक एंटीबायोटेक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) के नाम पर संपत्ति का पंजीकरण करने के मामले में तेजी लाने के लिए इसका अनुसरण कर रही है। दिनांक 02-07-2018 को पत्र के माध्यम से मामले का पालन किया गया। मेसर्स कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम (केएसएफसी) ने उपलब्ध भूमि के संयुक्त मापन करने का निर्णय लिया। संयुक्त मापन में, 26 गुंटों की सीमा तक भूमि की कमी बताई जा रही है और दिनांक 24-01-2019,

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

09.04.2019, 17.05.2019, 03.02.2020, 31.03.2020, 17.11.2020 और 24.11.2020 के पत्रों के माध्यम से हमने अंतर राशि की वापसी और हमारे नाम पर संपत्ति का पंजीकरण के लिए अनुरोध किया है और मामले का अवलोकन किया जा रहा है।

इस बीच, मैसर्स एल्विना फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, प्रबंध निदेशक और अन्य ने कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय, धारवाड़ बेंच में मैसर्स कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम (केएसएफसी) के विरुद्ध रिट याचिका संख्या 100258/2018 के माध्यम से एक रिट याचिका दायर की, जिसका प्रतिनिधित्व उप महाप्रबंधक, रायपुर तालुका, धारवाड़ जिला, प्रथम पक्ष, उप महाप्रबंधक, मैसर्स कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम (केएसएफसी) रायपुर तालुका, धारवाड़ जिला, द्वितीय पक्ष और मैसर्स कर्नाटक एंटीबायोटेक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) का प्रतिनिधित्व इसके प्रबंध निदेशक, बेंगलूरु तृतीय पक्ष द्वारा किया गया। कंपनी ने मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अधिवक्ता नियुक्त किया है। मामला अभी भी लंबित है और मामले की जांच की जा रही है।

कंपनी ने सभी सांविधिक देय का भुगतान करते हुए 7 अप्रैल 2022 को धारवाड़ का पंजीकरण पूरा किया है।

इसके अलावा कंपनी मैसर्स कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम (केएसएफसी) के साथ मैसर्स कर्नाटक एंटीबायोटेक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) को भुगतान की जाने वाली भूमि की कमी पर अंतर राशि की वापसी के लिए इसका अनुवर्ति कार्रवाई की जा रही है।

47. क्रय की गई उपयोग की गई परिसंपत्तियों (धारवाड़ संयंत्र) के उपयोगी जीवन का विवरण इस प्रकार है:

परिसंपत्ति	उपयोगी जीवन		
	कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार	तकनीकी सलाह के अनुसार	कंपनी द्वारा अपनाया गया
भवन	30	39	30
संयंत्र और मशीनरी	15	12	12
विद्युत संस्थापन	10	12	10
कार्यालयी उपकरण	5	3	3
कंप्यूटर और बाह्य उपकरण	3	2	2
फर्नीचर और फिटिंग्स	10	2	2

48. अन्य प्रकटीकरण

क. बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

ख. कंपनी ने वर्ष के दौरान बंद कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं किया है।

ग. कंपनी के पास कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है जो अभी तक सांविधिक अवधि से परे आरओसी के साथ पंजीकृत नहीं है।

घ. कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

ड. कंपनी के पास ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो आयकर अधिनियम, 1961 (जैसे, आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन खोज या सर्वेक्षण या कोई अन्य प्रासंगिक प्रावधान) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में आत्मसमर्पण या प्रकट किए गए खातों की पुस्तकों में दर्ज नहीं है।

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

50. अनुसूची खखख के अनुसार 25% से अधिक के अंतर के कारण सहित अनुपात

क्रम सं.	अनुपात	अंश-गणक	विभाजक	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	% अंतर
1	चालू अनुपात	चालू परिसंपत्तियाँ	चालू देयताएँ	2.02	2.17	-6.91%
2	ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण (उधार)	शेयरधारकों की इक्विटी	0.00	0.02	-100.00%
परिवर्तन उधार में कमी के कारण है						
3	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ब्याज, कर, मूल्यहास और असाधारण वस्तुओं से पूर्व अर्जन	ब्याज व्यय + लंबी अवधि के ऋणों के लिए वर्ष के दौरान किए गए पूंजी पुनर्भुगतान	537.29	1024.25	-47.54%
4	इक्विटी अनुपात पर वापसी	असाधारण मदों से पूर्व अवधि के लिए अवधि के लिए लाभ/(हानि)	शेयरधारक की औसत इक्विटी	9.97%	10.77%	-7.43%
5	मालसूची टर्नओवर अनुपात	बेचे गए माल की लागत = उपभोग की गई सामग्री की लागत + मालसूची में अंतर	औसत मालसूची	3.73	3.60	3.61%
6	प्राप्य व्यापार टर्नओवर अनुपात	परिचालन से राजस्व	औसत प्राप्य व्यापार	3.90	4.10	-4.88%
7	देय व्यापार टर्नओवर अनुपात	उपभोग की गई सामग्री की लागत + मालसूची में अंचक + संपत्ति की बिक्री पर हानि और हानि को छोड़कर अन्य व्यय	औसत देय व्यापार	2.99	3.11	-3.86%
8	निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात	परिचालन से राजस्व	कार्यशील पूंजी = चालू परिसंपत्तियाँ - चालू देयताएँ	3.70	2.93	26.28%
9	निवल लाभ अनुपात	असाधारण मदों से पूर्व अवधि के लिए लाभ / (हानि)	परिचालन से राजस्व	6.48%	6.84%	-5.26%
10	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	ब्याज, कर और असाधारण वस्तुओं से पूर्व अर्जन	औसत पूंजी नियोजित = कुल इक्विटी + कुल ऋण	15.39%	13.83%	11.28%
11	निवेश पर प्रतिफल	अंतिम कुल इक्विटी - प्रारंभिक कुल इक्विटी - शेयरधारकों को नकद भुगतान	प्रारंभिक कुल इक्विटी	7.03%	7.34%	-4.22%

50. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक हुआ, पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

यह समदिनांक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित लाभ और हानि का विवरण है।

कृते योगान्ध राम एलएलपी

सनदी लेखाकार

एफआरएन : 005157एस/एस200052

मनोज कुमार जैन

भागीदार

सदस्यता सं.218610

तारीख : 18 जुलाई 2023

स्थान : बेंगलूरु

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

कर्नाटक एण्टीबायोटेक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड

सीआईएन: U24231KA1981GOI004145

सुनिल कुमार कैमाल

प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 08528088

जगदीश सी

उप महाप्रबंधक - वित्त

डॉ. मधुचंदा कर

स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन: 09519016

सुप्रिया कुलकर्णी

कंपनी सचिव